

**भारत निर्वाचन आयोग**  
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. 579/प्रिंटिंग/2015/कम्यूनिकेशन

तारीख जून, 2016

सेवा में,

<b>1</b>	मैसर्स सोना प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड एफ 86/1, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली-110064	<b>2</b>	मैसर्स आई जी प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड 104, डी एस आई डी सी कॉम्प्लेक्स ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, नई दिल्ली - 110020
<b>3</b>	मैसर्स होलीफेथ इंटरनेशनल (प्राइवेट) लिमिटेड, गुलाब भवन, 6, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-02	<b>4</b>	मैसर्स जनरल स्ट्रीट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, सी-3/317, तीसरा तल, प्लॉट सं. 72, मिलन विहार, इंद्रप्रस्था एक्सटेंशन, दिल्ली- 92
<b>5</b>	मैसर्स रॉयल प्रेस, 1799, दूसरा तल, परसादी गली, कोटला मुबारकपुर, डी-57 के सामने, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली - 3	<b>6</b>	मैसर्स शाक्यम इंडिया इंटरप्राइजेज, प्लॉट नं. 170, भू-तल, पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली

**विषय :- 'लोक सभा निर्वाचन, 2014 की विवरणात्मक सांख्यिकीय एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट' नामक पुस्तक के मुद्रण के संबंध में**

महोदय/महोदया,

'लोक सभा निर्वाचन, 2014 की विवरणात्मक सांख्यिकीय एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट' नामक पुस्तक की 1500 प्रतियों के मुद्रण के लिए, आयोग के पैनल में शामिल प्रिंटर से सीलबंद निविदाएं (अनुबंध 'क' के अनुसार) आमंत्रित की जाती हैं। कार्य का विनिर्देशन निम्नलिखित है :-

आकार :- 24.5 सेमी. × 18.5 सेमी.

प्रतियों की संख्या :- 450

मुद्रण :- 4 रंग टेक्स्ट पृष्ठ/बहुवर्णी तस्वीर/चार्टमैप, ग्राफ

(आंतरिक कागज) :- 130 जी एस एम मैग्ना ब्रांड मैट

(आवरण कागज) :- 300 जी एस एम आयातित मैट

वार्निश :- सभी पृष्ठों पर मैट

बाइंडिंग :- पूर्ण

पृष्ठों की संख्या :- 1500 पृष्ठ (आवरण पृष्ठ सहित)

आवरण और आंतरिक डिजाइनिंग,

ले आउट प्रूफ रीडिंग :- पेशेवर के माध्यम से चयनित एजेंसी द्वारा किया जाए।

2. उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा। इच्छुक फर्म सीलबंद निविदा को अधोहस्ताक्षरी को संबोधित करके तारीख **15 जून, 2016 (बुधवार)** तक **12.00** बजे दोपहर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सीलबंद निविदाओं को उसी तारीख को अपराह्न **2.45** बजे कमरा सं. **308** में खोला जाएगा। आवश्यक निबंधन एवं शर्तें इसके साथ संलग्न हैं। संलग्न निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाली निविदाओं को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जाएगा। **कोट की गई दरों में सभी कर सम्मिलित होने चाहिए।**

ह/-

(एस. के. दास)

अवर सचिव

दूरभाष: **011-23052082**

ईमेल: [sumands34@gmail.com](mailto:sumands34@gmail.com)

## निबंधन एवं शर्ते

1. विनिर्देशनों के अनुरूप कागज का नमूना निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
2. कार्य आबंटन के बाद, फर्म को सर्वप्रथम अनुमोदन के लिए प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि यह पाया जाता है कि कार्य अपेक्षित विनिर्देशनों के अनुसार नहीं किया जा रहा है और या यदि निबंधनों एवं शर्तों को पूरा नहीं किया गया है तो आयोग को सौंपे गए कार्य को रद्द करने और फर्म पर शास्ति अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
3. आयोग, फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं करेगा। फर्म को संपूर्ण कार्य अपनी लागत से करना होगा और भुगतान कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा करने तथा इस संबंध में बिल को प्रस्तुत करने के बाद ही किया जाएगा।
4. कार्य पूरा करने के लिए समय, प्रमाण के अनुमोदन की तारीख से ठीक 5 दिवस है।
5. आयोग आदेश को रद्द कर सकता है, यदि अपेक्षित मदों की आपूर्ति समय पर नहीं की जाती है या आयोग द्वारा परिकल्पित विनिर्देशनों को पूरा किया जाता है।
6. आयोग को किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा। आयोग कार्य आदेश देने से पूर्व निबंधनों एवं शर्तों को परिवर्तित भी कर सकता है।

ह/-

(एस. के. दास)

अवर सचिव

वित्तीय बोली

बोली लगाने वाले को आयोग द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों/सामग्री के संकलन, डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग, प्रूफरीडिंग, फोटो एडिशन, मुद्रण आदि सहित सभी लागतों को सम्मिलित करना चाहिए।

**उल्लिखित कार्य के लिए कुल मूल्य :**  
**(सभी करों सहित)**

उपर्युक्त विनिर्देशनों में किसी परिवर्तन की स्थिति में, भुगतान अनुपात आधार पर किया जाएगा।

हस्ताक्षर :  
नाम :  
मोबाइल नं. :